

प्रेस नोट दिनांक 30.04.2021

(1). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 115 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). श्री अजय कुमार जायसवाल चौकी प्रभारी शिवरामपुर तथा उनकी टीम द्वारा खोही तिराहा से अभियुक्त जीतेश उर्फ जीतू पुत्र कमलेश निवासी महुटा थाना अतर्रा जनपद बांदा को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्मी में 60 आबकारी अधिनियम अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

25 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री अजय जायसवाल चौकी प्रभारी शिवरामपुर
2. मुख्य आरक्षी शिवनरेश
3. आरक्षी सोनू

(ii). श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री धनन्जय राय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त भुरा उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र शंकर लाल निवासी अकबरपुर थाना भरतकूप चित्रकूट को 90 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

90 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप
2. उ0नि0 श्री दिनेशचन्द्र तिवारी
3. आरक्षी दीपक श्रीवास्तव

(2). यूपी 112 जनपद चित्रकूट पीआरवी 2046 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनांक 29/04/2021 को समय 16:52 बजे इवेंट संख्या 11411 द्वारा घटनास्थल भौरी से 1 km पहले थाना रैपुरा से कॉलर देवराज ने बताया कि बाइक का बुलेरो से एक्सीडेंट हो गया है, 02 लोग घायल हैं। गाड़ी वाला टक्कर मार कर भाग गया है।

कृत कार्यवाही इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि बुलेरो एवं 02 पहिया वाहन में टक्कर हो गयी है, जिससे मोटरसाइकिल सवार दो लोग घायल हो गये। पीआरवी कर्मियों ने दोनों घायलों को पीआरवी वाहन की मदद से जिला अस्पताल सोनेपुर में भर्ती कराया है। घायलों के घरवालों को भी सूचना दी गई है।

पीआरवी स्टाफ:-

1. कमांडर – मुख्य आरक्षी सुशीलचंद्र निगम
2. सब कमांडर – मुख्य आरक्षी मोहम्मद इरशाद
3. पायलट – मुख्य आरक्षी बलबीर सिंह

(3). आज दिनांक 30.04.2021 को पुलिस लाईन्स सभागार में पुलिस विभाग में अपनी सेवा पूर्ण करने वाले उ0नि0 श्री सलाउद्दीन खां एवं मुख्य आरक्षी प्रसन्दीलाल को प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह द्वारा शॉल व माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों को हल्का नास्ता करवा कर मुंह मीठा करवाया गया। सेवानिवृत्त हुये दोनों कर्मचारियों को कहा गया कि घर जाकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें रहें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें।